Refrigerator रेफ़्रिजरेटर

User manual उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका RR19/20/22/26

Free Standing Appliance फ्री स्टैंडिंग उपकरण

Contents सामग्रियाँ

Safety information सुरक्षा जानकारी

	-
	4
Severe warning signs for installation स्थापना के लिए गंभीर चेतावनी चिहन	5
Severe warning signs for using उपयोग के लिए गंभीर चेतावनी चिहन	7
Caution signs for installation स्थापना के लिए सावधानी चिहन	9
Caution signs for using उपयोग के लिए चेतावनी चिहन	9
Caution signs for cleaning and maintenance सफाई और रखरखाव के लिए सावधानी चिहन	10
Severe warning signs for disposal निपटान के लिए गंभीर चेतावनी चिहन	11
This appliance is intended to be used in household and similar applications such as	12
यह उपकरण केवल घरेलू या इसी प्रकार के स्थानों पर उपयोग किए जाने के लिए बनाया गया है, जैसे	कि
Instructions about the WEEE WEEE के बारे में निर्देश	13
Installation स्थापना	12
IIIStaliation สนายา	13
Refrigerator at a glance रेफ़्रिजरेटर एक नज़र में	14

15

18

18

19

21

21

22

22

23

26

Refrigerator at a glance रेफ़्रिजरेटर एक नजर में Step-by-step installation चरण-दर-चरण स्थापन

Operations परिचालन

Adjusting the ten	nperature control	तापमान नि	यंत्रण समायोखि	जेत करना	
Special features	विशेष सुविधाएँ				

Maintenance रखरखाव Handle and care प्रबंधन और देखभाल Cleaning सफ़ाई Replacing the Bulb lamp बल्ब लेंप बदलना

Troubleshooting समस्या-निवारण

Card warranty

• चूँकि ये निम्नलिखित संचालन निर्देश विभिन्न मॉडल पर लागू होते हैं, इसलिए आपके रेफ़्रिजरेटर की विशेषताएँ इस मार्गदर्शिका में वर्णित विशेषताओं से थोड़ी भिन्न हो सकती हैं और हो सकता है सभी चेतावनी चिहन लागू न हों।

अगर आपके कोई प्रश्न या शंकाएँ हैं, तो अपने निकटतम सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.samsung.com पर ऑनलाइन सहायता और जानकारी प्राप्त करें।

- रेफ़्रिजरेंट के रूप में R-600a या R-134a का उपयोग किया जाता है। आपके रेफ़्रिजरेटर के लिए उपयोग किए गए प्रशीतक का पता लगाने के लिए उपकरण के पिछले हिस्से में कंप्रेशर लेबल देखें।
- अधिकृत सेवा कर्मचारी के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए इस उपकरण की मरम्मत करना जोख़िमपूर्ण हो सकता है।
- कूल पैक अंदर मौजूद तरल पदार्थ को न पीएँ हालाँकि यह मानव शरीर के लिए विषाक्त नहीं होता है।

• इस उपकरण को वोल्टेज स्टेबलाइजर के पास स्थापित न करें।

Warning; Risk of fire / flammable materials चेतावनी: आग लग सकती है/ज्वलनशील सामग्रियाँ

Important safety symbols and precautions महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रतीक और सावधानियाँ

🕂 WARNING चेतावनी

- Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury or death. खतरे या असुरक्षित व्यवहार जिनसे गंभीर निजी चोट लग सकती है या मृत्यु हो सकती है।
- Hazards or unsafe practices that may result in $\ensuremath{\textbf{minor personal injury or}}$ property damage. खतरे या असुरक्षित व्यवहार जिनसे हल्की निजी चोट लग सकती है या संपत्ति की क्षति हो
- सकती है।

🖹 NOTE नोट

- 🚫 Do NOT attempt. इसका प्रयास न करें।
- 🚫 Do NOT disassemble. इसे खोलें नहीं।
- 🕅 Do NOT touch. इसे स्पर्श न करें।
- 🚯 Follow directions carefully. निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें।

Safety information सुरक्षा जानकारी

- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference. Use this appliance only for its intended purpose as described in this
- instruction manual.
- Instruction manual. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when
- Because these following operating instructions cover various models the characteristics of your refrigerator may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service center or find help and information online at www.samsung.com.
- R-600a or R-134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance to see which refrigerant is used for your refrigerator.
- It is hazardous for anyone other than an Authorised Service Person to service this appliance. Do not drink the liquid which is inside the cool pack although it is not
- toxic to human body. Do not install the appliance nearby the voltage stabilizer.
- उपकरण के संचालन से पूर्व, कृपया इस मार्गदर्शिका को पूरी तरह पढ़ें और इसे अपने संदर्भ के लिए रखें।
- इस उपकरण का उपयोग इस निर्देश पुस्तिका में वर्णित नियत उद्देश्य के लिए ही किया जाना चाहिए।
- इस उपयोकरण का उपयोग 8 साल या उससे बड़े बच्चों तथा क्षीण शारीरिक, संवेदक या मानसिक क्षमताएँ या कम अनुभव एवं ज्ञान वाले व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है बशर्ते कि उन्हें उपकरण को सुरक्षित तरीके से उपयोग से जुड़े पर्यवेक्षण या निर्देश प्रदान किए गए हैं और वे इससे उत्पन्न ख़तरों को समझते हैं। बच्चों को उपकरण के साथ नहीं खेलने देना चाहिए। पर्यवेक्षण के बिना बच्चों को सफाई और उपयोगकर्ता रखरखाव नहीं
- करना चाहिए। इस नियम-पुस्तिका में चेतावनी एवं महत्वपूर्ण सुरक्षा निर्देशों में घटित हो सकने वाली सभी संभव परिस्थितियाँ तथा स्थितियाँ नहीं शामिल हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप स्थापित, रखरखाव, तथा अपने उपकरण का संचालन करते समय सहज ज्ञान, सतर्कता एवं सावधानी का प्रयोग करें।

Safety information सुरक्षा जानकारी

(Unplug the power plug from the wall socket

दीवार के सॉकेट से बिजली के प्लग को निकाल दें।

Make sure the machine is grounded to prevent electric shock. बिजली के झटके से बचने के लिए सुनिश्चित करें की मशीन स्थिर है।

Call the contact center for help. सहायता के लिए संपर्क केंद्र पर कॉल करें। These warning signs are here to prevent injury to you and others. Please follow them carefully.

After reading this section, keep it in a safe place for future reference ये चेतावनी संकेत आपको और दूसरों को चोट लगने से बचाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। कृपया उनका सावधानी से पालन करें। इँस खंड को पढ़ने के बाद, भावी संदर्भ के लिए उसे किसी सुरक्षित जगह पर रखें।

Severe warning signs for installation स्थापना के लिए गंभीर चेतावनी चिहन

🕂 WARNING चेतावनी

- Do not plug several appliances into the same multiple power board. The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matched the rating plate.
 This provides the best performance and also prevents overloading
- house wiring circuits, which could cause a fire hazard from overheated wires. If the wall socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
- Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its
- length or at either end.
- Do not bend the power cord excessively or place heavy articles on it. Do not use aerosols near the refrigerator, it may cause an explosion or fire.
- Do not store flammable stuff near the refrigerator, Connect the power plug in proper position with the cord hanging down. If you connect the power plug upside down, wire can get cut off and cause fire or electric shock.
- When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord.
- This constitutes a fire hazard.
- This appliance should be positioned in such a way that it is accessible to
- Failing to do so may result in an electric shock or fire due to electric
 Do not use a hooking power by direct tapping from the electric line leakage. 📀• एकाधिक पावर बोर्ड में अनेक उपकरणों के प्लग न लगाएँ।
- रेफ़्रिजरेटर का प्लग हमेशा अपने अलग बिजली के आउटलेट में लगा होना चाहिए जिसकी वोल्टेज रेटिंग. रेटिंग प्लेट से मेल खाती हो।
 - डससे सर्वश्रेष्ठ कार्य-निष्पादन मिलता है और डससे घर का वायरिंग सर्किट ओवरलोड होने से भी बचता है, जिससे अत्यधिक गर्म तारों से आग का खतरा हो सकता है।
- यदि दीवार का सॉकेट ढीला हो, तो उसमें पावर प्लग न लगाएँ।
- इससे बिजली के झटके या आग का जोखिम होता है।
- ऐसे किसी तार का उपयोग न करें जिसकी पूरी लंबाई या किसी छोर में दरारें या घर्षण क्षति नजर आ रही हो।

🖉• अगर उपकरण अजीब आवाज़, जलन या गंध या धुआँ पैदा करता है, तो

- ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली या आग के जोखिम हो सकते हैं।

तत्काल बिजली प्लग निकालें और अपने निकटतम सेवा केंद्र से संपर्क करें।

• अगर रेफ़्रिजरेटर में धूल या पानी है, तो बिजली के प्लग को निकाल दें और अपने

Keep ventilation opening in the appliance enclosure or mounting

The installation or any service of this appliance is recommended by a

- Failing to do so may result in an electric shock, fire, explosion, problems with the product, or injury.

Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct sunlight and water (rain drops)

ۥ उपकरण की अंदरूनी जगह या आधार संरचना में मौजूद वाय्संचार छिद्र में किसी

• इस उपकरण की स्थापना या कोई भी सर्विस, योग्य तकनीशियन या सर्विस कंपनी से

- ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली का झटका लग सकता है, आग लग सकती है,

Do not place glass or bottles or carbonated beverages into the freezer.

There is no need to disconnect the refrigerator from the power supply if you will be away for less than three weeks. But, remove all the food if you

are going away for the three weeks or more. Unplug the refrigerator and

• सावधान रहें कि यह आपकी उंगलियों पर न लगे।

Instructions about the WEEE WEEE के बारे में निर्देश

(Applicable in countries with separate collection systems)

sustainable reuse of material resources.

इस उत्पाद का सही निपटान (अपशिष्ट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण) (पृथक संग्रहण प्रणालियों

इस उत्पाद, सहा यक उपकरणों या इसके दस्तावेज़ों पर स्थित चिहनांकन द र्श्ता है कि इस उत्पाद,

उनका निपटान अन्य घरेलू कचरे के साथ नहीं किया जाना चाहिए। अनियंत्रित अपशिष्ट निपटान से

पर्यावरण और मनुष्यों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए, कृपया इन आइटम को अन्य प्रकार

सुरक्षित निपटान और रिसाइकल करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट

1800 5 SAMSUNG(1800 5 7267864) पर हमसे संपर्क करें।

Installation स्थापना

to prevent accidents before using it.

लिए इन निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें।

के कचरे से अलग कर दें और सामग्री संसाधनों के दीर्घकालिक पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उन्हें

www.samsung.com/in/support पर जाएँ या हेल्पला इन नंबर - 1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864),

Follow these instructions carefully to ensure a proper installation of this refrigerator and

इस रेफ़्रिजरेटर की उचित स्थापना और इसके उपयोग से पहले दुर्घटनाओं की रोकथाम सुनिश्चित करने के

Use the refrigerator only for its intended purpose as described in this manual.

किसी भी प्रकार की सर्विसिंग केवल योग्यता-प्राप्त तकनीशियनों द्वारा की जानी चाहिए।

• उत्पाद पैकेजिंग सामग्रियों का निपटान स्थानीय विनियमों के अनुसार करें।

Any servicing must be performed by a qualified technician.
 Dispose of the product packaging material in compliance with the local regulations.
 रेफ़िजरेटर का उपयोग इस निर्देश पुस्तिका में वर्णित नियत उद्देश्य के लिए ही करें।

The actual image and provided component parts of the refrigerator may differ, depending

वास्तविक छवि और प्रदान किए गए रेफ़्रिजरेटर के संघटक हिस्से, मॉडल और देश के अनुसार भिन्न हो सकते हैं।

डसके डलेक्टॉनिक सहायक उपकरणों (जैसे चार्जर, हैडसेट, USB के बल) का जीवनकाल समाप्त होने पर

• Be careful that your fingers are not caught in.

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the

product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable)

health from uncontrolled waste disposal, please separate these items

For more information on safe disposal and recycling visit our website

www.samsung.com/in/support or contact our Helpline numbers

from other types of waste and recycle them responsibly to promote the

1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864), 1800 5 SAMSUNG (1800 5 7267864),

should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human

The container may freeze and break, and this may result in injury.

विस्फोट हो सकता है, उत्पाद में समस्याएँ हो सकती हैं या चोट लग सकती है।

Caution signs for using उपयोग के लिए चेतावनी चिहन

Deteriorated insulation on electrical parts may cause an electric shock or fire.

• रेफ़्रिजरेटर के अंदरुनी लैंप को बदलने से पहले पावर प्लग को सॉकेट से बाहर निकाल लें।

- अन्यथा, बिजली के झटके का जोखिम बना रहता है।

Samsung Electronics सेवा केंद्र से संपर्क करें।

- अन्यथा, आग लगने का जोखिम बना रहता है।

Caution signs for installation

gualified technician or service company.

स्थापना के लिए सावधानी चिहन

भी तरह की रुकावट न आने दें।

करने की अन्शंसा की जाती है।

🕂 CAUTION सावधान

clean it, rinse and dry.

—0

वाले देशों में लाग्)

जिम्मेदारी से रिसाडकल करें।

/ WARNING चेतावनी

on the model and the countr

🖺 NOTE नोट

🕂 CAUTION सावधान



- - - <u>A</u> CAUTION सावधान

- बिजली के तार को अधिक न मोड़ें या इस पर कोई भारी चीज न रख दें।
- रेफ़्रिजरेटर के पास ऐयरोसोल्स का उपयोग करने से विस्फोट हो सकता है या आग लग सकती है।
- फ्रिज के पास ज्वलनशील सामान न रखें।
- तार को नीचे लटकाकर बिजली के प्लग को उचित स्थिति म कनेक्ट करें। - अगर आप बिजली के प्लग को उल्टा लगाते हैं, तो तार कट सकता है और आग या बिजली का झटका लग सकता है।
- रेफ़्रिजरेटर के पिछल हिस्से द्वारा बिजली के प्लग का कुचलना या क्षतिग्रस्त न होना सुनिश्चित करें।
- रेफ़्रिजरेटर का स्थान बदलने के दौरान, बिजली के तार को क्षतिग्रस्त न होने दें,इससे आग का जोखिम हो सकता है।
- इस उपकरण को कुछ इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि यह बिजली के प्लग की पहुँच में हो।
- ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली के रिसाव के कारण बिजली का झटका या आग लग सकती है।
- सीधे बिजली के खंभे से तार फसा कर उपकरण को ना चलाये |

• This appliance must be properly grounded

- Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line. - You must ground the refrigerator to prevent any power leakages or electric shocks caused by current leakage from the refrigerator. This may result in an electric shock, fire, explosion, or problems with the product.
- Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure that it is in accordance with local and national codes.

. यह उपकरण ठीक प्रकार ग्राउंड किया गया होना चाहिए।

- उपकरण को गैस पाइप, प्लास्टिक के पानी के पाइप या टेलीफ़ोन लाइन से ग्राउंड न करें। - बिजली लीकेज रोकने या रेफ़्रिजरेटर से वर्तमान लीकेज के कारण बिजली के झटके से बचने के लिए आपको रेफ़्रिजरेटर को ग्राउंड कर देना चाहिए।
- इससे बिजली का झटका, आग लग सकती है, विस्फोट हो सकता है या उत्पाद में समस्याएँ हो सकती हैं।
- बिजली के प्लग को कभी भी ऐसे सॉकेट में न लगाएँ जिसे ठीक प्रकार ग्राउंड नहीं किया गया है और सुनिश्चित करें कि यह स्थानीय और राष्ट्रीय संहिताओं के अनुपालन में है।
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard • The fuse on the refrigerator must be changed by a qualified technician or
- -Failing to do so may result in an electric shock or personal injury.
- 🏈• यदि बिजली की तार खराब हो, तो जोखिम से बचने के लिए इसे निर्माता, इसके सेवा एजेंट या समान रूप से योग्य व्यक्ति दवारा बदला जाना चाहिए।
- रेफ़्रिजरेटर पर लगा फ्युज़ योग्य तकनीशियन या सर्विस कंपनी दवारा ही बदला जाना चाहिए

ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली का झटका या निजी चोट लग सकती है।

Do not place the food to be frozen in direct contact with food in storage. Do not store fresh fruits and vegetables in chill compartment which goes bad

- Do not store mean not a not vegetating easily at low temperatures Do not exceed the storage time recommended by the food manufacturers for commercially quick-frozen food
- commercially quick-frozen food
 Do not keep vegetable oil in your refrigerator's door bins. The oil can solidify, making it foul-tasting and difficult to use. In addition, the open container can leak and the leaked oil can cause the door bin to crack. After opening an oil container, it is best to keep the container in a cool and shaded place such as a cupboard or pantry. Examples of vegetable oil: olive oil, corn oil, grape-seed oil, etc.
- 😍• ग्लास या बोतल या कार्बोनेट किए गए पेय-पदार्थों को फ़्रीजर में न रखें।
- पात्र जम या टूट सकता है और इससे चोट लग सकती है।
- अगर आप तीन सप्ताह से कम समय के लिए बाहर हैं तो रेफ़्रजरेटर को बिजली आपूर्ति से डिस्कनेक्ट करने का आवश्यकता नहीं है।
- लेकिन, अगर आप तीन सप्ताह या अधिक समय के लिए बाहर जा रहे हैं तो सभी भोजन को निकाल दें। रेफ़्रिजरेटर का प्लग निकालें और इसकी सफाई, धुलाई करें और सुखाएँ।
- वनस्पति तेल को अपने रेफ़्रिजरेटर के डोर बिन में न रखें। इससे तेल जम सकता है, जिससे कि इसका स्वाद खराब हो जाता है और इसे उपयोग करने में परेशानी होती है। इसके अतिरिक्त, खुला हुआ कंटेनर लीक हो सकता है और लीक होने वाले तेल की वजह से डोर बिन में दरार आ सकती है। तेल का कंटेनर खोलने के बाद इसे किसी अलमारी या पेंट्री जैसे किसी ठंडे और छायादार स्थान में रखना बहुत अच्छा रहता है।
- वनस्पति तेल के उदाहरणों निम्न शामिल हैं: जैतून का तेल, मक्के का तेल, अंगूर के बीज का तेल आदि
- जमे हुए भोजन को भंडारण में भोजन के सीधे संपर्क में न रखें।
- ताजे फैल और सब्जियों को ठंडे डिब्बे में न रखें जो कम तापमान पर आसानी से खराब हो जाते हैं
 व्यावसायिक रूप से जल्दी से जमे हुए भोजन के लिए खाद्य निर्माताओं द्वारा अनुशंसित भंडारण समय से
- अधिक न हो

Caution signs for cleaning and maintenance सफाई और रखरखाव के लिए सावधानी चिहन

🕂 CAUTION सावधान

- Do not clean the appliance by spraying water directly onto it. Do not spray inflammable gas near the refrigerator. There is a risk of explosion or fire.
- Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug
- terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
- Failing to do so may result in an electric shock or fire
- Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket. Failing to do so may result in an electric shock or fire
- If the key is provided with refrigerator, the keys should be kept out of the reach of children and not be in the vicinity of the appliance.
- Do not clean glass shelves or covers with warm water when they are cold. Glass shelves and covers may break if exposed to sudden temperature changes or impacts such as bumping or dropping. 10

Severe warning signs for using

उपयोग के लिए गंभीर चेतावनी चिहन

/ WARNING चेतावनी

SAMSUNG

- WARTUINU dididii
 Do not touch the power plug with wet hands.
 This may result in an electric shock.
 Do not store articles on the top of the appliance.
 When you open or close the door, the articles may fall and cause a personal injury and/or material damage.
 Do not put a container filled with water on the refrigerator.
 If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
 Do not let children hang on the door. If not, a serious injury may occur.
 There is a Risk of children entrapment.
 Do not let children enter inside the refrigerator.
 Do not let children enter inside the refrigerator.
 Do not let children enter inside the refrigerator.
 Do not keep volatile or inflammable objects or substances (benzene, thinner, propane gas, alcohol, ether, LP gas and other such products etc. thinner, propane gas, alcohol, ether, LP gas and other such products etc.)
- in the refrigerator. This may result in fire or explosion.

- This may result in fire or explosion.
 Do not place a lighted candle in the refrigerator for removing bad odours. This may result in an electric shock or fire.
 Do not use a candle on top of the appliance when a blackout.
 Do not touch the inside walls of the freezer or products stored in the freezer with wet hands.
 This may cause frostbite.
 Do not use electrical, mechanical devices or any other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
 Do not damage the refrigerant circuit.
 Fill the water tank, ice tray, water cubes only with potable water.
 Do not keep the keys of the refrigerator within the reach of children as there is a possibility of children being locked inside
- ○• गीले हाथों से बिजली के प्लग को स्पर्श न करें।
- इसके कारण बिजली का झटका लग सकता है।
- उपकरण के शीर्ष पर सामान न रखें।
- जब आप दरवाजा खोलते या बंद करते हैं, तो सामान गिर सकते हैं तथा उससे व्यक्तिगत रूप से चोट लग सकती है और/या उपकरण क्षतिग्रस्त हो सकता है।
- पानी से भरे पात्र को उपकरण पर न रखें।
- इसके छलकने से आग या बिजली के झटके का खतरा हो सकता है।
- बच्चों को डोर पर लटकने न दें। ऐसा नहीं करने पर, गंभीर चोट लग सकती है। • फ्रिज में अस्थिर या ज्वलूनशील वस्तओं या पदार्थों (बेन्ज़ीन, थिनर, प्रोपेन गैस,
- अल्कोहल ईथर, LP गैस और ऐसे अन्य उत्पाद आदि) न रखें। इसके कारण आग लग सकती है या विस्फोट हो सकता है।
- रेफ़्रिजरेटर के अंदरूनी हिस्से को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का उपयोग न करें।
- दुर्गध हटाने के लिए रेफ़्रिजरेटर के अंदर जलती मोमबत्ती न रखें।
- इँसके कारण बिजली का झटका या आग लग सकती है।
- अंधेरा होने पर उपकरण के ऊपरी हिस्से में मोमबत्तीन रखे |
- रेफ्रिजरेटर की चाबियां बच्चों की पहुंच के भीतर न रखें क्योंकि इससे बच्चों के अंदर बंद होने की आशंका रहती है
- Safety information स्रक्षा जानकारी
 - For internal and external cleaning use a clean sponge or soft cloth and a mind detergent in warm water.
- Do not use abrasive or harsh cleansers, these can scratch or damage the material. • उपकरण पर सीधे पानी का स्प्रे करके उसे साफ न करें।
- रेफ़्रिजरेटर के पास ज्वलनशील गैस स्प्रे न करें।
- विस्फोट या आग लगने का जोखिम बना रहता है।
- नियमित रूप से एक सूखे कपड़े का उपयोग करके बिजली के प्लग के टर्मिनल और संपर्क बिंदुओं से धुल या पानी जैसे सभी बाहरी पदार्थों को निकाल दें।
- बिजली के प्लग को निकालें और इसे सुखे कपड़े से साफ करें।
- ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली का झटका या आग लग सकती है।
- सफाई या रखरखाव करने से पहले, उपकरण का प्लग दीवार के सॉकेट से निकाल दें।
- ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली का झटका या आग लग सकती है। • अगर रेफ़्रिजरेटर के साथ चाबियाँ प्रदान की गई हैं, तो चाबियों को बच्चों की पहँच
- से दूर रखना चाहिए और इन्हें उपकरण के पास नहीं छोड़ना चाहिए।
- जब रेलास शेल्फ़ या कवर ठंडे हों, तब उन्हें गर्म पानी से साफ़ न करें। अगुर ग्लास शेल्फ़ु और कुवर अचानक से बदलते तापमान के संपर्क में आते हैं या
- कोई उछाल या गिरावट होती है, तो ये टूट सकते हैं।
- आंत्रिक और बाहरी सफाई के लिए एक साफ स्पंज या नरम कपड़े और एक डिटर्जेंट गर्म णनी में उपयोग करें। • अपघर्षक या कठोर क्लीन्ज़र का उपयोग न करें, ये सामग्री को खरोंच या नुकसान पहुंचा सकते हैं।
- Severe warning signs for disposal

निपटान के लिए गंभीर चेतावनी चिहन 🗥 WARNING चेतावनी

- ★ Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside When this product contains flammable gas (Refrigerant R-600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product. Cyclopentane is used as an insulation blowing gas.
- The gases in insulation material require special disposal procedure.
 Please contact your local authorities in regard to the environmentally safe
- disposal of this product. Ensure that none of the pipes on the back of the appliances are damaged
- prior to disposal. Pipes shall be broken in the open space. When disposing of this or other refrigerator/s, remove the door/door seals,
- door latch so that children or animals cannot become trapped inside. Children should be supervised to ensure that they do not enter and play with the appliance.
- If trapped inside, the child may become injury and suffocate to death.
 Please dispose of the packaging material for this product in an environmentally friendly manner.
- शेल्फ़ को ऐसे स्थान पर रखें ताकि बच्चे आसानी से भीतर न चढ़ पाएँ।
- रेफ़्रिजरेंट के रूप में R-600a या R-134a का उपयोग किया जाता है। आपके रेफ़्रिजरेटर
- के लिए उपयोग किए गए प्रशीतक का पता लगाने के लिए उपकरण के पिछले हिस्से में कप्रेशर लेबल या फ़्रिंज के अंदर रेटिग लेबल देखें। चूँकि इस उत्पाद में ज्वलनशील गैस

- गीले हाथों से फ़्रीजर के अंदरूनी दीवारों या फ़्रीजर में रखे उत्पादों को न छुएँ।
- इससे शीतदंश हो सकता है।
- विहिमीकरण प्रक्रिया को तेज करने के लिए निर्माता दवारा अनशंसित मशीनी उपकरण या किसी दूसरे उपाय के अलावा किसी अन्य उपकरण या उपाय का उपयोंग त करे।

• पानी के टैंक, बर्फ की ट्रे, पानी के क्यूब को केवल पीने योग्य पानी से ही भरें।

S• This product is intended only for the storage of food in a domestic

Bottles should be stored tightly together so that they do not fall out.
Do not insert hands, feet or metal objects (such as chopsticks, etc.) into the bottom or the back of the refrigerator.

उ∙ यह उत्पाद घरेलू परिवेश में केवल खादय पदार्थ के भंडारण के लिए नियत है।

• हाथों, पैरों या धात की वस्तुओं (जैसे चॉपस्टिक, आदि) को रेफ़्रिजरेटर के निचले

S• Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.

Do not use any fuse (such as cooper, steel wire, etc.) other than the

When repairing or reinstalling the appliance is required, contact your

Failing to do so may result in an electric shock, fire, problems with the

- ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली का झटका, आग लग सकती है, उत्पाद में

 \mathcal{O} · If the appliance generates a strange noise, a burning or smell or smoke

Pull the power plug out of the socket before changing the interior lamps of

If any dust or water is in the refrigerator, pull out power plug and contact

(रेफ़्रिजरेंट R-600a) मौजद है, इसलिए इस उत्पाद के सुरक्षित निपटान के संबंध में

स्थानीय प्राधिकरण से संपर्क करें। रोधन को उड़ाने वाली गैस के रूप में साइक्लोपेंटेन

रोधन सामग्री में स्थित गैसों के निपटान के लिए विशेष निपटान प्रक्रिया की

इस उत्पाद के पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित निपटान के संबंध में अपने स्थानीय

इस या किसी अन्य रेफ़्रिजरेटर का निपटान करते समय, दरवाज़ों/ दरवाज़ों की सील,

दरवाज़ों की सिटकनी निकाल दें ताकि छोटे बच्चे या जानवर इसके अंदर न फॅसें।

- अंदर फँसने पर बच्चों को चोट लग सकती है और दम घुटने से मृत्यु हो सकती है।

कृपया इस उत्पाद की पैकेजिंग सामग्री का निपटान पर्यावरण-अन्कूॅल तरीके से करें।

दकानों, कार्यालयों और अन्य कार्यस्थलों में कर्मचारियों के लिए बने रसोईघरों में;

फ़ॉर्म हाउस में और होटलों और अन्य आवासीय स्थानों पर क्लाइंट दवारा;

This appliance is intended to be used in household

staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
farm houses and by clients in hotels, and other residential type environments;

* Stabilizer Free Rating Condition 🔹 स्टेब्लाइजर फ्री रेटिंग की स्थिति

Power supply is erratic at most places in India, with voltage fluctuating in both directions (up and down) at many places frequently.
 These voltage fluctuations can damage appliances, thereby causing them to end much before their normal useful life.
 So it is better to use Stabilizer if voltage fluctuation range is over than label value.

मानकों •• के अंतंगत किए गये परीक्षण अनुसार) में आये उतार चढाव के दौरान कंप्रेसर को सुरक्षित रखता है। • बिजली की आपूर्ति और वोल्टेज में उतार चढाव की स्थिति भारत में अधिक स्थानों पर अनिश्चित है।

वोल्टेज में आये उतार चढ़ाव से उपकरण को नुकसान पहुँच सकता है और वे सामान्य उपयोगी जीवन से

इसलिए वोल्टेंज का उतार चढ़ाव लेबल रेंज से अधिक या कम होने की स्थिति में स्टेब्लाइजर का उपयोग करें।

• स्टेब्लाइजर फ्री अर्थात सैमसंग रेफ्रीजरेटर लेबल पर दिए गये व्यापक वोल्टेज रेंज (सैमसंग आंतरिक

Stabilizer free means Samsung refrigerator protect compressor against widest voltage fluctuation range given on the label. When tested in standard environment conditions** according to Samsung Internal Standard.

बच्चों की देखरेख की जानी चाहिए ताकि यह स्निश्चित हो सके कि वे उपकरण में

निपटान से पहले सनिश्चित करें कि उपकरण के पीछे लगे कोई पाइप क्षतिग्रस्त नहीं है।

unplug the power plug immediately and contact your nearest service center.

- मानक फ्यूज़ के अलावा किसी अन्य फ्यूज़ (जैसे ताँबे, स्टील के तार, आदि) का उपयोग न करें।

• स्वयं उपकरण की मरम्मत, उसे खोलने या संशोधित करने का प्रयास न करें।

- जब उपकरण की मरम्मत या पुनः स्थापना की आवश्यकता हो, तो अपने

This may result in an electric shock or injury. Any sharp edges may cause a personal injury.

- इसके कारण बिजली का झटका या चोट लग सकती है। - किसी भी नकीले किनारे से व्यक्तिगत रूप से चोट लग सकती है।

• बोतलों को एकदम सटाकर रखना चाहिए ताकि वे गिर न जाएँ।

• प्रशीतक सर्किट को क्षति न पहुँचाएँ।

या पिछले भाग में न डालें।

nearest service center.

निकटतम सेवा केंद्र से संपर्क करें।

समस्याएँ हो सकती हैं या चोट लग सकती है।

Otherwise, there is a risk of electric shock.

your Samsung Electronics service center. Otherwise there is a risk of fire.

- Failing to do so may result in an electric or fire hazards.

standard fuse.

product, or injury.

the refrigerator

का उपयोग किया गया है।

प्राधिकरणों से संपर्क करें।

पाइपों को खले स्थान पर तोड़ा जाना चाहिए।

प्रवेश न कर जाएँ और उसके साथ खेलने न लगे।

and similar applications such as

किए जाने के लिए बनाया गया है, जैसे कि

bed and breakfast type environments;

विश्राम और खान-पान वाले परिवेश में:

🖹 NOTE नोट

पहले खराब हो सकता है।

12

11

· catering and similar non-retail applications

• केटरिंग और इसी प्रकार के गैर-खुदरा स्थानों पर।

यह उपकरण केवल घरेलू या इसी प्रकार के स्थानों पर उपयोग

आवश्यकता होती है।

Installation स्थापना

Refrigerator at a glance रेफ़्रिजरेटर एक नज़र में RR19/20 01 Ice making compartment 05 Shelf शेल्फ़ 09 Stand table * स्टैंड टेबल * (Super Freeze Zone) बर्फ़ बनाने का कंपार्टमेंट (सुपर फ़्रीज़ ज़ोन) Chiller compartment चित्तर कंपार्टमेंट बेरी बिन वैरायटी 10 Door bin Egg डोर बिन एग 11 Fresh Max Door bin 02 Chiller compartment चिलर कंपार्टमेंट फ्रेश मैक्स डोर बिन s only 03 Bulb Lamp ਫ਼ੁਲਰ ਜੈਂਧ 08 Door bin Jumbo* केवल उपयुक्त मॉडल* डोर बिन जम्बो * **04** lce tray बर्फ़ की ट्रे



Cool wave / Cool pack: This helps keep the refrigerator cool. **Ice tray:** Used to make ice. Your refrigerator may not include optional accessories listed above.

Provision of optional accessories depends on the model and the country कूल वेव/पैक: यह रेफ़्रिजरेटर को ठंडा रखने में मदद करता है। किया जाय कि कि

आपके रेफ़्रिजरेटर में ऊपर सूचीबद्ध वैकल्पिक सहायक उपकरण संभवतः शामिल न हों। वैकल्पिक सहायक उपकरणों का प्रावधान मॉडल और देश पर निर्भर करता है। To secure more room for storage in the refrigerator compartment

To get more space, you can remove cool pack(s) which can be removed without aid of a tool. It does not affect thermal and mechanical characteristics.

A declared storage volume is calculated with cool pack(s) removed.

- These optional accessories do not affect thermal and mechanical performance. A declared storage volume of the freezer is based on the nonexistence of those optional accessories.
- For best energy efficiency, make sure all of shelves, drawers, and baskets are placed in their original position.

रेफ़्रिजरेटर कंपार्टमेंट में भंडारण के लिए अधिक जगह सुरक्षित करने के लिए

- अधिक जगह पाने के लिए, आप कूल पैक को निकाल सकते हैं जिसे बिना किसी उपकरण की सहायता से निकाला जा सकता है। इससे ऊष्मीय और यांत्रिक विशिष्टताओं पर कोई प्रभाव नहीं पडता है।
- घोषित संग्रहण वॉल्यूम का परिकलन कूल पैक निकाल कर किया जाता है।
- ये वैकल्पिक सहायक उपकरण उष्प्र्यीय और यांत्रिक प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करते हैं।
 फ्रीजर का घोषित संग्रहण वॉल्यूम उन वैकल्पिक सहायक उपकरणों की गैर-मौजूदगी पर आधारित होता है। • सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा दक्षता के लिए, सुनिश्चित करें कि सभी शेल्फ़, ड्रॉअर, और बास्केट अपने मूल स्थान पर लगेगें।

STEP 6 Final check चरण 6 अंतिम जाँच

When installation is complete, confirm that:

14 -

- The refrigerator is plugged into an electrical outlet and grounded properly. • The refrigerator is installed on a flat, level surface with a reasonable clearance from the
- wall or the cabinet. · The refrigerator is level and is sitting firmly on the floor.
- The door opens and closes freely, and the interior light turns on automatically when you open the door.
- ्राज्य परि हो जाने पर, पुष्टि करें कि: रेफ़्रिजरेटर का प्लग बिजली के आउटलेट में लगा हो और रेफ़्रिजरेटर उचित ढंग से ग्राउंड किया गया हो। र रिफ्रेजेटर संपाट, समतल सतह पर स्थापित हो तथा दीवार या कैबिनेट से पर्याप्त दूरी पर हो। • रेफ्रिजेटर समतल हो और फ़र्श पर मज़ब्ती से स्थापित हो। • दरवाज़ा बिना रोक टोक खुलता और बंद होता हो, दरवाज़ा खुलने पर अंदरूनीलाइट स्वचालित रूप से उल जाते हों।

Operations परिचालन

Adjusting the temperature control तापमान नियंत्रण समायोजित करना Freezer / Fridge (Temperature adjustment) (फ्रीजर/फ्रिज) (तापमान समायोजन)



 DIAL At "Monsoon" POINT (3~4 No.)
 To maintain optimum temperature for food storage, set the control dial at the "Monsoon" डायल का "Monsoon" बिंदु पर होना (3~4 नं.) • भोजन संग्रहण के लिए अनुकुलतम तापमान बनाए रखने हेतु, नियंत्रण डायल को "Monsoon" स्थिति पर रखें। DIAL At "Summer" POINT (5~6 No.) डायल का "Summer" बिंदु पर होना (5~6 न.) नियंत्रण डायल को "Summer" की स्थिति पर सेट करने पर, रेफ़्रिजरेटर सबसे ठंडा हो जाता है।

large quantities of food is stored, For quickice making set the control dialat th 'Summer" Position. भोजन की अत्यधिक मात्रा संग्रहीत किए जाने पर, त्वरित रूप से बर्फ बनाने के लिए नियंत्रण डायल को "Summer" की स्थिति पर सेट करें।

- DIAL At "Winter" POINT (1~2 No.) डायल का "Winter" बिंदु पर होना (1~2 नं.)
- r becomes warme
- नियंत्रण डायल को "Winter" की स्थिति पर सेट करने पर, रेफ़्रिजरेटर का तापमान अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। • When small quantities of food is stored. • जब भोजन की कम मात्रा संग्रहीत की जाती है।

🚯 NOTE नोट

18

- If the temperature where the Refrigerator is placed is lower than 5 $^\circ\text{C},$ set the temperature control to WINTER. Because the temperature of the Refrigerator is affected by the temperature around the Refrigerator and it will be lower than the set value.
- Apart from knob settings mentioned above, if you desire to increase or reduce the cooling, turn the knob clockwise or anticlockwise to the degrees you want.

Step-by-step installation चरण-दर-चरण स्थापना STEP 1 Select a site चरण 1 एक स्थान चनें Site requirement Solid, level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation Away from direct sunlight Adequate room for opening and closing the door Away from a heat source

- Room for maintenance and servicing Temperature range: between 10 °C and 43 °C स्थान की आवश्यकताएँ: ठोस, समतल सतह बगैर किसी प्रकार के कार्पेट या फ़्लोरिंग के जो कि वेंटिलेशन को बाधित कर सकते हैं
- सीधी धुप से दुर दरवाज़ा खोलने और बंद करने के लिए पर्याप्त जगह
- गर्मी के स्रोत से दूर
 रख-रखाव और सर्विसिंग के लिए जगह
- तापमान सीमा: 10 °C से 43 °C के बीच
- Effective temperature range

The refrigerator is designed to operate normally in the temperature range specified by its class rating.

प्रभावी तापमान सीमा

रेफ़्रिजरेटर को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि यह अपनी श्रेणी रेटिंग में निर्दिष्ट तापमान सीमा में सामान्य रूप से काम करे।

Class	Symbol	Ambient Temperature range (°C) परिवेशी तापमान सीमा (°C)		
श्रेणी	प्रतीक	IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561	
Extended Temperate विस्तृत परिमित	SN	+10 to +32	+10 to +32	
Temperate परिमित	Ν	+16 to +32	+16 to +32	
Subtropical उपोष्णकटिबंधीय	ST	+16 to +38	+18 to +38	
Tropical उष्णकटिबंधीय	Т	+16 to +43	+18 to +43	

🞒 NOTE नोट

The cooling performance and power consumption of the refrigerator may be affected by the ambient temperature, the door-opening frequency, and the location of the refrigerator We recommend adjusting the temperature settings as appropriate. रेफ़्रिजरेटर का कुलिंग प्रदर्शन और बिजली उपभोग परिवेशी तापमान, दरवाज़ा खुलने की आवृत्ति, रेफ़्रिजरेटर के

स्थान से प्रभावित हो सकता है। हम तापमान सेटिंग को उपयुक्ततानुसार समायोजित करने की अनुशंसा करते हैं। Clearance क्लीयरेंस See the pictures and table below for space requirements for installation

स्थापना के लिए स्थान की आवश्यकताओं के बारे में जानने के लिए नीचे प्रदान चित्र और तालिका देखें।

Operations परिचालन

- रेफ़्रिजरेटर जिस स्थान पर रखा है, यदि उस स्थान का तापमान 5 °C से कम हो, तो
- राष्ट्रगणत्वर जिल स्थान पर रखा है, यद उत्त स्थान भा तामनान उ के पाल हो, ता तापमान नियंत्रण को Winter पर सेट कर कियाँके रेफ्रिजेरेटर का तापमान, इसके आसपास के तापमान से प्रभावित होता है, और यह सेट किए गए मान से कम होगा।
- ऊपर उल्लिखित नॉब सेटिंग के अलावा, यदि आप कूलिंग को बढ़ाना या कम करना चाहते हैं तो नॉब को अपने इच्छित अंशों तक घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएँ।

Special features विशेष सुविधाएँ

ा जित्तर क्रिस्ट से पहले संग्रहीत भोजन को फ्रीजर ठिब्बे से कालने की हमेशा अनुशंसा की जाती है।

\land CAUTION सावधान

The actual image and special functions of your refrigerator may differ, depending on the model and the country



 Check the layer thickness of the frost/ ice formed on the walls of the ice
 Push the Defrost butth Frost on the surface of will berg to mark and the surface of will berg to mark and the surface of the surfa Frost on the surface of the evaporator during the defrost process (1), and will begin to melt and can be easily more frost is formed, please defrost If you press the Defrost button in higher inner temperatures (ambient After defrosting is finished, the बर्फ़ बनाने वाल कंपार्टमेंट की दीवारों पर जमे बुत्यारथतों के प्रान्त की मोटई जीवी ब्रायरकों के प्रान्त की मोटई जीवी यदि की जमा हुआ है, तो क्रूपया डीफोरट को 2. डीफोरट करते के लिए Defost (डीफोरट कर) ressed and stays normal (2) मी is always recommended to <u>क्रियर बिली 2 क्रिफोर करते कि लिए Defost</u> (डीफोरट कर) temperature), the button would not be It is always recommended to remove the stored food from the freezer compartment before acr द्वार्थी उद्याण्यक पर जमा बंग पियलने कोगा और आसामी से हटाया जा सकता है। क्रिकेंस्ट पर हो क्रिकेंस्ट बटन. डिफ्रॉस्ट प्रक्रिया (1) के दौरान दबी हुई रहती है और यह पूरी हो जाने पर इसकी सामान्य

लू हो जाएगा।	पूरी हो जाने पर इसकी सामान्य
	स्थिति में वापस आ जाती है।
•	अगर आप अंदर अधिक तापमान (परिवेशी तापमान) होने पर डीफ़ोस्ट करें बटन दबाते हैं, तो बटन नहीं
	दबेगा और सामान्य (2) बना रहता है।

in the appliance?

In order to remove ice from the ice making compartment, do not use a keen tool, knife or screw driver.

Troubleshooting समस्या-निवारण

बर्फ़ बनाने वाले कंपार्टमेंट से बर्फ़ निकालने के लिए, तीक्ष्ण उपकरण, चाकू या स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग न करें। How to lock लॉक करने का तरीका

OW LOIDER (MICH 491 (14(19)
Key hole with with Key	 You can use the provided key to lock the refrigerator's door. The door lock is unlocked in the horizontal (-) position, and locked in the vertical (1) position. To lock the door, fully insert the key. Then, press the key while turning it to the left. To unlock the door, fully insert the key. Then, press the key while turning it to the right.

्राप प्रदान की गई चाबी का उपयोग रेफ़्रिजरेटर को लॉक करने के लिए कर सकते हैं। दरवाज़े का लॉक क्षैतिज (—) स्थिति में और, लम्बवत (]) स्थिति में लॉक होता है। दरवाजे को लॉक करने के लिए चाबी को परी तरह अंदर दालें। इसके बाद इसे बाई ओर घमाने समय चाबी को दबाएँ।

• दरवाजे को खोलने के लिए चाबी को पूरी तरह अंदर डालें। इसके बाद इसे दाई ओर घुमाते समय चाबी को दबाएँ।

Installation स्थापना



1300	1307	1420	1502	1615
649	649	649	649	649
			(unit: mm)	(इकाई: मिमी)
s30 mm ● NOTE नोट				
^{79 mm} ^{48 mm}				

प्रत्येक माप डिज़ाइन के आयाम पर आधारित होता है इसलिए सापन विधि के आधार पर उसमें भिन्नता हो सकती है।

🕂 CAUTION सावधान

Dverall Height "D

संपूर्ण ऊँचाई "D"

गहराई "E"

Depth "E

Please tie up the extra length of the power cord at the back of the refrigerator so as not to be touched on the floor preventing the power cord from being crushed by the rollers upon

नपया रेफ़्रिजरेटर के पीछे बिजली की तार की अतिरिक्त लंबाई को बांध दें ताकि यह फ़र्श को न छूए और बिजली की तार स्थान बदलने के दौरान रॉलर्स से कुचल न जाएँ।

STEP 2 Flooring चरण 2 फ़्लोरिंग

1188

649



a fully loaded refrigerator. To protect the floor, put a large piece of cardboard on each leg of the refrigerator Once the refrigerator is in its final position, do not move it unless necessary to protect the floor If you have to, use a thick paper or cloth such as old carpets along the movement path.

The surface to install the refrigerator must support

Operations परिचालन

🗥 CAUTION सावधानी

- 15

16

- Do not leave the key in the door lock. You can lose the key.
- Do not forcefully open the door before unlocking it. The door may be damaged.
- चाबी को दरवाज़े के लॉक में नहीं छोड़ें। आपकी चाबी खो सकती है।

• दरवाज़े को अनलॉक किए बिना उसे ज़बरजस्ती न खोलें। दरवाज़ा क्षतिग्रस्त हो सकता है।

- Cool Pack (Applicable models only) कूल पैक (केवल लागू मॉडल) Take out the Chilled Room tray from inside the refrigerator.
 Put the Cool Pack in the Chilled Room tray.
 - 1. रेफ़्रिजरेटर के अंदर से चिल्ड रूम ट्रे निकालें।
 - कूल पैक को चिल्ड रूम ट्रे में रखें।
 - 🞒 NOTE नोट If the Chiller compartment is not inserted to the
 - end, water can drop to the bottom of refrigerator
- when defrost is performed. So the Chiller compartment should be inserted to the end when you store the food in the Chiller compartment.
- अगर चिलर कंपार्टमेंट को सिरे तक नहीं डाला जाता है. तो डिफ्रॉस्ट करते समय पानी रेफ्रिजरेटर के
- निचले सिरे तक गिर सकता है।
- इसलिए जब आप चिलर कंपार्टमेंट में भोजन का संग्रहण करते हैं, तब चिलर कंपार्टमेंट को इसके सिरे तक अंदर डाला जाना चाहिए।

Cool Pack/Wave (Applicable models only) कूल पैक/वेव (केवल लागू मॉडल) 1. Remove the plastic bag and tape from the Chilled

refrigerator

refrigerator



3. Put the Cool Pack/Wave in the Chilled Room tray. 1. रेफ़्रिजरेटर के ऊपरी हिस्से में मौजूद ठंडा ट्रे कूल पैक / वेव से प्लास्टिक बैग और टेप निकालें।

Tray Cool Pack / Wave in the top part of the

2. Take out the Chilled Room tray from inside the

2. रेफ़्रिजरेटर के अंदर से चिल्ड रूम ट्रे निकालें।

3. कूल पैक/वेव को चिल्ड रूम ट्रे में रखें।

20 -

- 🖹 NOTE नोट
- If the **Chiller compartment** is not inserted to the end, water can drop to the bottom of refrigerator when defrost is performed. • So the Chiller compartment should be inserted to the end when you store the food in the
- Chiller compartment.
- अगर चिलर कंपार्टमेंट को सिरे तक नहीं डाला जाता है, तो डिफ्रॉस्ट करते समय पानी रेफ़्रिजरेटर के निचले सिरे तक गिर सकता है। • डसलिए जब आप चिलर कंपार्टमेंट में भोजन का संग्रहण करते हैं, तब चिलर कंपार्टमेंट को इसके
- . सिरे तक अंदर डाला जाना चाहिए।

स्थापना वाली सतह को परी तरह से भरे रेफ़्रिजरेटर को संभालना चाहिए

et

Level the refrigerator by manually adjusting the levelling feet. Turn the levelling feet clockwise to lower the

position, or turn counter clockwise to raise. For safety reasons, adjust the front

side a little higher than the rear side. समतलीकरण पाया को मैन्युअली समायोजित करके

रेफ़्रिजरेटर को समतल करें। स्थान नीचे करने के लिए समतलीकरण पाया को घड़ी की सुई की दिशा

के विपरीत घुमाएँ। सुरक्षा कारणों से, सामने के हिस्से

STEP 5 Initial settings चरण 5 आरंभिक सेटिग

2. दरवाजा खोलें. और देखें कि अंदरूनी लाइट जले हैं या नहीं।

में घुमाएँ, उठाने के लिए घड़ी की सुई की दिशा

को पीछे के हिस्से के मुकाबले थोड़ा ऊपर रखें।

CAUTION सावधानी

Ice making बर्फ़ बनान

1. ट्रे को 80 % तक पानी से भरें।

🗥 CAUTION सावधान

store delicate foodstuffs.

लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है।

Chiller compartment

चिलर कंपार्टमेंट

NOTE नोट

कर्श की सुरक्षा के लिए, रेफ़्रिजरेटर के प्रत्येक पाँव के नीचे कार्डबोर्ड का एक बड़ा ट्कड़ा रख दें। रेफ़्रिजरेटर के अपने अंतिम स्थान पर आ जाने के बाद, इसे तब तक न हिलाएँ जब तक फ़र्श की सुरक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक न हो। यदि आपको ऐसा करना पड़े, तो स्थानांतरण पथ पर मोटे कागज़ या कपडे जैसे कि पराने कार्पेट का उपयोग करें।

Q

 \otimes

स्टैंड का उपयोग न करें।

🞒 NOTE नोट

STEP 4 Attach the door support (RR20 Non Stand table models only) *Only applicable models चरण 4 दरवाज़े पर समर्थन संलग्न करें (RR20 बिना स्टैंड का टेबल केवल मॉडल) *केवल लागू मॉडल_

The other person inserts the door support (A) into the outcome and अन्य व्यक्ति दरवाज़े के निचले छेद से दरवाज़े पर समर्थन (A) लगाते हैं।

o prevent the refrigerator from falling or shaking while it is operating or when the door bin is fully loaded but the fridge is mpty, follow these instructions to attach the door support (A). This work must be done by two persons. फिलदेर का संराधान करते समय था प्रतिने से सेकने के लिए या जब दरवाजे का किन पूरी तरह से अगर क्या होता है, सेकिम फिज खासी होता है, 1) दरवाजे के समर्थन (A) को संलग्न करने के लिए इन निर्देशों का पालन करें। यह काम दो लोगों द्यारा किया जाना चाहिए।

4. Wait until the refrigerator reaches the set temperature. Now the refrigerator is ready for use.

To facilitate storage or removal of food items in

different sizes, you can reposition the Fresh Max divider by pulling the divider out and reinserting in

विभिन्न आकारों के भोजन आडटम का संग्रहण करने और निकालने की

सुविधा देने हेतु आप फ़्रेश मैक्स डिवाइडर को बाहर खींचकर और उसे

फेंर से इच्छित स्थिति में डाल कर उसकी स्थिति बदल सकते हैं।

the tray and gently twist to remove th

. कड़ें और बर्फ़ के ट्कड़े निकालने के लिए

osition. Do not put the shelves upside dow or reverse the front and back.

किसी शेल्फ को निकालने के लिए, पहले

विरता शत्म पत्री पत्री लिखालन का लिए, पहल दरवाज़ों को परी तरह खोलें. शेल्फ़ को आगे की ओर खींचें, ऊपर उठाएं और फिर बाहर खींच लें, शेल्फ़ को अपनी स्थिति में झका

- 21

जिंदा दें, रीरफ को अपनी स्थान हु। जन्म-की कोशिश न करें, रीरफ को उपरा न रखे या आमें और पीठे की और उस्टा न दे

ICE CUDES. 3. आडस दे खाली करने के लिए. दे का दोनों

छार पकड़ आर ब आहिस्ते से मोड़ें।

a ovoid personal injury or product damage from a fall or scratch, use caution throughout the entire process. यक्तिगत चोट से बचने के लिए या उत्पाद के गिरने पर क्षति होने से या स्क्रेच से बचाने के लिए, संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान सावधानी बरतें।

By completing the following steps, the refrigerator should be fully functioning. 1. Plug the power cord into the wall socket to turn the refrigerator on.

Open the door, and check if the interior light lights up.
 Set the temperature to the coldest, and wait for about an hour.

निम्न चरणों को पूरा करने पर, रेफ़्रिजरेटर पूरी तरह से संचालनीय हो जाना चाहिए।

1. रेफ़्रिजरेटर को चालू करने के लिए बिजली के प्लग को दीवार पर लगे सॉकेट में लगाएँ।

तापमान को सबसे ठंडे तापमान पर सेट करें, और लगभग एक घंटे तक प्रतीक्षा करें।

Fresh max (Applicable models only) फ़्रेश मैक्स (केवल लागु मॉडल)

1. Fill the tray up to 80 % with water level. 2. Place the ice tray in the Super Freeze

max of Freezer or COLDEST of temperature control for the ice cubes to form. आहिस्ते यह अनुशंसा की जाती है कि बर्फ़ के जमने के लिएआप फ्रीजर को max (अधिकतम) पर सेट करने या

It is recommended that you wait about 1~2 hours after setting

glass can shatter when the contents freeze

Maintenance रखरखाव

चिलर कंपार्टमेंट को अपनी तरफ खींचें जब तक यह स्टॉपर से न सट जाए।

सामने के हिस्से को ऊपर झुकाएँ और कंपार्टमेंट को खींच कर बाहर निकालें

Troubleshooting समस्या-निवारण

Handle and care प्रबंधन और देखभाल

4. रेफ़्रिजरेटर के तय तापमान पर पहँचने तक प्रतीक्षा करें। अब रेफ़्रिजरेटर उपयोग के लिए तैयार है।

a desired position.

आइस ट्रे को सुपर फ़्रीज जोन में रखें।

• The coldest part of the Refrigerator is the Super Freeze Zone. This is the best place to

Glass bottles containing liquids should never be stored in the Super Freeze Zone as the

रेफ़्रिजरेटर का सबसे ठंडा हिस्सा सुपर फ्रीज जोन है। यह नाजुक खाद्य पदार्थों को संग्रहीत करने के

उन काँच की बोतलों को कभी भी सुपर फ्रीज जोन में नहीं रखा जाना चाहिए जिनमें तरल पदार्थ भरे हैं क्योंकि सामग्रियों के जमने पर काँच फट सकता है।

Shelves

शेल्फ

0

 \otimes

स्क्रू को कसने के लिए फ़िलिप्स के स्क्रूड्राइवर का उपयोग करें।

unu une retrigerator backward, and have one person hold the refrigerator from the back रेफ़िजरेटर को पीछे की और झुकारों और पीछे से एक व्यक्ति को रेफ़्रिजरेटर पकड़ने दें।

i't use stand to avoid noise and leveling issue.

This model does not allow for adjusting the front right foot that is fixed. Use the front left foot for levelling.

इस मॉडल में आप सुनिश्चित स्थान पर लगाए गए

. आगे के दाएँ पावे को एडजस्ट नहीं कर सकते।

स्तरीकरण के लिए आगे के बाएँ पावे का उपयोग

17

शोर और लेवलिंग की समास्या से बचने के लिए

STEP 3 Adjust the levelling feet चरण 3 समतलीकरण पाया को समायोजित करें

Maintenance रखरखाव

Door bin Variety

डोर बिन वैरायटी

mav be pos

Cleaning सफ़ाई

🗥 WARNING चेतावनी

Vegetable Box वेजिटेबल बॉक्स take it out of the Refrigerator. Lift the cover up and pull it out of the

then lift up and pull out of the door bir his Door bin Variety is a

Hardy UE JUSHTOPED 10 DEST RT YOU' needs. अंग्रेडे देर के लेपि गाइर को दबाएँ फेरि उभर उठाएं और दवाना कनि से बारद खींथी (यह डोर बिन वेगहरी एउकरर करने योग्य होती हैं (यह डोर बिन वेगहरी एउकरर करने योग्य होती हैं (यह डोर बिन वेगहरी एउकरर करने योग्य होती हैं (यह डोर बिन वेगहरी एउकरर करने योग्य होती हैं (यह डोर बिन वेगहरी एउकरर करने योग्य होती हैं) कर से पोजिसन किया जा सकता है))

• Do not use benzene, thinner, or home/car detergent such as Clorox[™] for cleaning purposes. They may damage the surface of the refrigerator and cause a fire.

• रेफ़्रिजरेटर पर पानी का छिड़काव न करें। इसके कारण बिजली का झटका लग सकता है।

• सफ़ाई के लिए बेन्ज़ीन, थिनर, या होम/कार डिटर्जेंट जैसे कि Clorox™ का उपयोग नहीं करें। वे रेफ़्रीजरेटर

🕂 WARNING चेतावनी



hed to hest fit your needs)

Do not spray water onto the refric

की सतह को क्षति पहुँचा सकते हैं और आग लगा सकते हैं।

Replacing the Bulb lamp बल्ब लैंप बदलना

लैंप कवर हुक

3. लैंप कवर हुक को दोनों तरफ दबाएँ और फिर लैंप कवर को बाहर निकालें।

लैंप बदलने से पहले बिजली के तार को डिस्कनेक्ट कर दें।

1. बिजली की तार को सॉकेट से निकाल दें।

4. लैंप काउंटर को घड़ी की सुई की दिशा में मोड़ें।

5. मूल लैंप को समान ब्यौरे वाले नए लैंप से ही बदलें।

2. ट्रे पार्टीशन और शेल्फ़ को निकालें।

ustomer's Signature & Date accept the Terms & Conditions of warranty)

22 -

कवर को ऊपर उठाएँ और इसे खींच कर रेफ़्रिजरेटर से बाहर निकालें

भीयुक्त सब्ज़ियों के बॉक्स को आगे की ओर खींचें और उसे रेफ़्रिजरेटर से बाहर निकालें





ator. This may cause electric shoc

isconnect power supply before replacing the lamp.

1. Unplug the power cord from the socket.

3. Push the Lamp cover hook on both side

2. Remove Tray partition and shelf.

and then take Lamp cover out.

4. Turn the lamp counter clockwise. 5. Replace with new lamp same

specification as original one.

Problem समस्या Solution समाधान Check if the appliance is installed on a stable and even floor जाँचें कि उपकरण एक स्थिर, समतल सतह पर स्थापित है। There are unusual Is the back of the appliance too close to the wall क्या उपकरण का पिछला भाग दीवार के बहुत पास है? Have any foreign objects fallen behind or under the appliance? असामान्य आवाज़ें आ रही हैं। क्या उपकरण के पीछे या नीचे कोई बाहरी वस्तु गिर गयी है? Is the noise coming from the compre क्या आवाज़ उपकरण में लगे कंप्रेसर से आ रही है? A ticking sound occurs when the various accessories contract or expand जब विविध सहायक उपकरण संकुचित या विस्तृत होते हैं तब टिक-टिक की आवाज़ सुनाई देती है। The front corners and Heat-proof pipes are installed in the front corners of the appliance to prevent condensation from forming. sides of the appliance When the surrounding temperature rises, this may not are warm and condensation starts always be effective. However, this is not abnormal to form. उपकरण के सामने के कोनों में ताप-रोधी पाइप स्थापित होते हैं ताकि उपकरण के सामने के संघनन की रोकथाम हो सके। आसपास का तापमान बढ़ जाने पर, किनारे और साइड गर्म यह हमेशा उतना प्रभावी न हो। हालाँकि, यह असामान्य बात नहीं है। हैं और संघन गया है। You can h bubbling i appliance आप उपकरण बुदबुदाने की पा रहे हैं। There is a

inside the

उपकरण के

हो रही है।

न प्रारंभ हो	यह हमरी। उतना प्रमाव न हो। हालांगिक, यह असामान्य बात नहां हो In very humid weather, condensation may form on the outer surface of the appliance when the moisture in the air comes into contact with the cool surface of the appliance. बहुत नम मौसम में, जब हवा में मौजूद नमी उपकरण की ठंडी सतह के संपर्क में आती है तो उपकरण की बाहरी सतह पर संघनन बन सकता है।
ear a liquid n the ा में द्रव के आवाज़ सुन	 This is the refrigerant, which cools the inside of the appliance. यह रेफ़्रिजरेंट है, जो उपकरण के भीतरी भाग को ठंडा करता है।
bad smell appliance. श्रीतर बदब्	 Has a food item spoiled? क्या कोई भोजन आइटम खराब हो गया है? Make sure that strong smelling food (for example, fish) is wrapped so that it is airtight. सुनिश्चित करें की तीक्ष्ण गंध वाला भोजन (उदाहरण के लिए मछली) को लपेटा गया है ताकि वह वायुख्द रहे। Clean out your Freezer periodically and throw away any spoiled food. When cleaning the inside of the fridge, store food elsewhere and unplug the appliance. Wipe with a dry dishcloth after 2-3 hours and then circulate air inside the refrigerator. समय-समय पर अपने फ्रीजर की सफाई करें और किसी श्री खराब भोजन के फैंक दें। फ्रिज के अंदर सफाई करते समय, खादय-यदार्थों को कहीं और स्टोर करें और उपकरण का प्लग बाहर तिकालें। 2-3 धंटे बाद सूखे कपडे से साफ करें और फिर रेफ्रिजरेटर के अंदर वायु-संचार होने दें।

There is a layer of frost on the appliances walls. उपकरणों की दीवारों पर तुषार की परत जम गई है।	 Are the air outlet vents blocked by food stored inside the Refrigerator? क्या रेफ्रिजरेटर के शीतर रखे शोजन से हवा के निकासी छिद्र अवरोधित हो गए हैं? Space the food out as much as possible to improve ventilation. वायु संचार को बेहतर बनाने के लिए शोजन को जितना संभव हो सके उतना दूर रखें। If the freezer drawer is not completely closed or is blocked, humidity from outside may enter and cause severe frost to form. यदि फ्रीजर की दराज़ प्री तरह बंद न हो या अवरुद्ध हो, तो बाहरी नमी अंदर प्रवेश कर सकती है।
Condensation forms on the inside wall of the appliance and around vegetables. उपकरण की भीतरी दीवारों या सब्जियों के आस पास संघनन हो गया है।	 Food with a high water content is stored uncovered with a high humidity level or the door has been left open for a long time. उच्च नमी स्तर पर पानी की अधिक मात्रा वाला भोजन बिना किसी कवर के संग्रहीत किया गया है या दरवाज़ा बहुत लंबे समय के लिए खुला छोड़ दिया गया है। Store the food with a cover or in sealed containers. भोजन को ढक कर या सीलबंद पात्रों में संग्रहीत करें।
The appliance is not operating at all or the temperature is too high or low. उपकरण बिल्कुत नहीं चल रहा है या तापमान बहुत अधिक या कम है।	 Check that the power plug is correctly connected. जॉर्च कि पावर प्लग ठीक ढंग से कनेक्ट है। Is the temperature control on the front panel correctly set? क्या सामने के पैनल पर तापमान नियंत्रण ठीक फ्रार सेट है? Is the appliance in direct sunlight or located near a heat source.? If so, it may not be able to cool as well. Please put it in a place that is out of direct sunlight and not near a heat source. क्या उपकरण सीधी धूप में या गर्मी के सोत के पास स्थित है? यदि हाँ, तो वह संभवतः उतना बढिया ढंग से ठंडा न कर पाए। कृपया इस् ऐसी जगह पर रखें जहाँ सीधी धूप न पडती हो और ताप सोत समीप न हो Is the back of the appliance too close to the wall? Is the back of the appliance too close to the wall? Is the back of the appliance too close to the wall? कया उपकरण का पिछला भाग दीवार के बहुत पास है? यदि हाँ, तो वह पर्याप्त रूप से उंडा करने में सक्षम नहीं होगा। उसे दीवार से उचित दूरी पर रखें। Is there too much food inside so that the food is blocking the outlet vent? To keep the refrigerator at a suitable temperature, do not fill the refrigerator with too much food. क्या अंदर बहुत अधिक खादय-सामग्री है जिससे खादय-पदार्थ निकास वायु मार्ग को बाधित कर रहा है? रिफ़जरेटर को अपयुक्त तापमान पर रखने के लिए, रेफ़्रिजरेटर का अध्वक खादय-सामग्री न अरे।

The food in the Refrigerator is frozen. रेफ़्रिजरेटर में रखा भोजन जमा हुआ है।	 Is the temperature control or control panel set to the coldest temperature? क्या तापमान नियंत्रण या नियंत्रण पैनल सबसे ठंडे तापमान पर सेट है? Is the surrounding temperature too low? क्या आस पास का तापमान बहुत कम है?
The lamps in the freezer and refrigerator are not turned on. फ़्रीजर और रेफ़्रीजरेटर में तेंप चालू नहीं होता है।	 The lamps may not be turned back on if the doors of the freezer and refrigerator remain opened side by side for 2 seconds or longer. Close the doors and then open them again. यदि फ्रीजर और रेफ्रीजरेटर के दरवाजे साथ-साथ 2 सेकेंड या अधिक देर तक के लिए खुले रहते हैं तो संभवतः वापस न जले। दरवाजे बंद करें और फिर उन्हें फिर से खोलें।
Water Deposition on Cover Door/Chiller Tray कवर डोर या चिलर ट्रे पे पानी का जमा होना साधारण बात है, खराबी का संकेत नहीं	 Water Deposition on cover door/Chiller tray is due to frequent opening of the door/humid environment which is a normal phenomenon. It can be cleaned with a dry cloth. कवर डोर/ चिलर ट्रे पर पानी का जमाव होना फ्रिज के डोर ,च्यादा खुलने/ वातावरण में नमी के कारण होता है जो कि एक सामान्य / प्राकृतिक प्रक्रिया है। उसे एक सूखे कपड़े से साफ किया जा सकता है Cover Door कवर डोर Chiller Tray चिलर ट्रे

* Stabilizer Free Rating Condition * स्टेब्लाइजर फ्री रेटिंग की स्थिति Stabilizer free means Samsung refrigerator protect compressor against widest voltage fluctuation range given on the label. When tested in standard environment conditions** according to Samsung Internal

- Standard. 😰 स्टेब्लाइजर फ्री अर्थात सैमसंग रेफ्रीजरेटर लेबल पर दिए गये व्यापक वोल्टेज रेंज (सैमसंग
- आंतरिक मानकों** के अंर्तगत किये गये परीक्षण अनुसार) में आये उतार चढ़ाव के दौरान कंप्रेसर को सरक्षित रखता है।
- Power supply is erratic at most places in India, with voltage fluctuating in both directions (up and down) at many places frequently. These voltage fluctuations can damage appliances, thereby causing them to end much before their normal useful life.
- So it is better to use Stabilizer if voltage fluctuation range is over than label value. 🕒 बिजली की आपूर्ति और वोल्टेज में उतार चढ़ाव की स्थिति भारत में अधिक स्थानों पर अनिश्चित है।
- वोल्टेज में आये उतार चढ़ाव से उपकरण को नुकसान पहुँच सकता है और वे सामान्य उपयोगी जीवन से पहले खराब हो सकता है।
- इसलिए वोल्टेज का उतार चढ़ाव लेबल रेंज से अधिक या कम होने की स्थिति में स्टेब्लाइजर का उपयोग करें।



Dealer 's Signature with rubber stamp

			cases, and in such cases Samsung may at its		
ole discretio		n a chargeable bas	is. The decision of Samsung, whether a nding on the Purchaser.		
The dully fi undertaken	lled warranty card/proof of pure / requested.	chase is not presented	to the service engineer at the time of repairs being		
The origina	The original serial number of the product is removed, altered or obliterated from the product.				
The produc MANUAL.	t purchased is not used as per	the rated power condi	tions or instructions mentioned in the INSTRUCTION		
	t is being used for commercial ermitted within the product inst		duct has been used excessively and beyond reasonable		
Site (premi	ses where the product is used/	kept) conditions that d	o not conform to the recommended operations of the produc		
	used due to exposure to moistu s/corrosions/oxidations/spilling		thermal or environmental conditions or rapid changes in suc e of Chemical substances.		
			Itage, spikes, external sources (ex: cable/set top box riots, theft, anti-social action, acts of God or while in transit.		
Defects car	used by household pets, rats, o	ockroaches, ants, pest	is, fungi or any other animal/birds/insects.		
	used due to negligence/omission in the instruction manual of the		account of periodic maintenance(s)/periodic servicing as		
Defects car	used due to usage of third part	y material/non Samsun	g Authorized Consumables.		
	cations, including but not limite ware(s) or software(s) of the p		reverse engineering, unlocking, jail-breaking etc. of the		
Repair due	to misuse/third party repair att	empts are not covered	in warranty.		
Warranty d	oes not cover repair due to ext	a sea a life a da sea fara a alla sea a l			
		ernal factors/mediums/	data types.		
Warranty sl			data types. specifications (ex: personal, commercial etc.)		
Warranty s	hall apply only if the product is hall be void if product has failed	used as per its usage : d under certain conditio	specifications (ex: personal, commercial etc.) ns/types (ex: water logging, misuse, etc.)		
Warranty si All disputes arisi /arranty period	hall apply only if the product is hall be void if product has failer ng out of this warranty are subjec commences from the date of pure	used as per its usage s d under certain conditio :t to Delhi jurisdiction onl chase of the product unle	specifications (ex: personal, commercial etc.) ns/types (ex: water logging, misuse, etc.) y. sss specified otherwise.		
Warranty sl All disputes arisi	hall apply only if the product is hall be void if product has faile- ng out of this warranty are subjec commences from the date of pur Product Description	used as per its usage s d under certain conditic t to Delhi jurisdiction onl	specifications (ex: personal, commercial etc.) ns/types (ex: water logging, misuse, etc.) y. sss specified otherwise. Parts/Accessory Warranty(if applicable)		
Warranty si All disputes arisi /arranty period	hall apply only if the product is hall be void if product has failer ng out of this warranty are subjec commences from the date of pure	used as per its usage s d under certain conditio :t to Delhi jurisdiction onl chase of the product unle	specifications (ex: personal, commercial etc.) ns/types (ex: water logging, misuse, etc.) y. sss specified otherwise.		
Warranty s All disputes orisi /arranty period Product Group	hall apply only if the product is hall be void if product has failer ng out of this warranty are subjec commences from the date of pur Product Description Room/Split Air Conditioner/Floor	used as per its usage e d under certain condition et to Delhi jurisdiction onl chase of the product unle Warranty Period (Monthe)	specifications (ex: personal, commercial etc.) ns/types (ex: water logging, misuse, etc.) y, sss specified otherwise. Parts/Accessory Warranty(if applicable) 60 Months on Compressor*120 Months on Digital Inverter Compressor*		
Warranty si All disputes arisi /arranty period	hall apply only if the product is hall be void if product has faile ng out of this warranty are subjec- commences from the date of pun Product Description Room/Spilit Al Conditioner/Floor Standing Al Conditioner/Floor Standing Al Conditioner Casette Air Conditioner	used as per its usage s d under certain condition et to Delhi jurisdiction onli chase of the product unle Warranty Period (Months) 12	specifications (ex: personal, commercial etc.) ns/types (ex: water logging, misuse, etc.) y, sss specified otherwise. Parts/Accessory Warranty(if applicable) 60 Months on Compressor*120 Months on Digital Inverter Compressor*		
Warranty s All disputes orisi /arranty period Product Group	hall apply only if the product is hall be void if product has failen ng out of this warranty are subjec commences from the date of pur Product Description Room/Split Air Conditioner/Floor Standing Air Conditioners (FAC) Duct Type Air Conditioner	used as per its usage s d under certain condition et to Delhi jurisdiction onli chase of the product unk Warranty Period (Months) 12 15*	specifications (ex: personal, commercial etc.) ns/types (ex: water logging, misuse, etc.) y. sss specified otherwise. Parts/Accessory Warranty(if applicable) 60 Months on Compressor*120 Months on Digital Inverter Compressor* Condenser: 60 months (Fin&Tube: 12 months)		
Warranty s All disputes orisi /arranty period Product Group	hall apply only if the product is hall be void if product has faile ng out of this warranty are subjec- commences from the date of pun Product Description Room/Spilit Al Conditioner/Floor Standing Al Conditioner/Floor Standing Al Conditioner Casette Air Conditioner	used as per its usage s d under certain condition et to Delhi jurisdiction onli chase of the product unler Warranty Period (Montha) 12 15' 15'	specifications (ex: personal, commercial etc.) ns/types (ex: water logging, misuse, etc.) y. sss specified otherwise. Parts/Accessory Warranty(if applicable) 60 Months on Compressor*120 Months on Digital Inverter Compressor* Condenser: 60 months (Fin&Tube: 12 months)		
Warranty s All disputes orisi /arranty period Product Group	hall apply only if the product is hall be void if product has faile ng out of this warronly are subjec- commences from the date of pure Product Description Product Description Com/Spile Ar Conditioner/FROT Standing Ar Conditioner (FAD) Duct Type Air Conditioner Cassette Air Conditioner FJM	used as per its usage s d under certain condition et to Delhi jurisdiction on lichase of the product unle Warranty Period (Montha) 12 15' 15' 15'	specifications (ex: personal, commercial etc.) ns/types (ex: water logging, misuse, etc.) y, sss specified otherwise. Parts/Accessory Warranty(if applicable) 60 Months on Compressor*120 Months on Digital Inverter Compressor* Condenser: 60 months (Fin&Tube : 12 months) 36 Months on Compressor*		
Warranty si All disputes arisi (arranty period of Product Group AC	hall apply only if the product is hall be void if product has failed ng out of this worronty ore subjec- commences from the date of pure Product Description Room/Split A: Conditioner/FAO Standing Ar Conditioner Cassette Air Conditioner Cassette Air Conditioner FM Indoor DVM & Outdoor DVM	used as per its usage a d under certain condition et to Delhi jurisdiction onli- chase of the product unle warranty Period Okonthal 12 15' 15' 15' 15' 12''	specifications (ex: personal, commercial etc.) ns/types (ex: water logging, misuse, etc.) y, sss specified otherwise. Parts/Accessory Warranty(if applicable) 60 Months on Compressor*120 Months on Digital Inverter Compressor* Condenser: 60 months (Fin&Tube : 12 months) 36 Months on Compressor*		
Warranty si All disputes arisi arranty period of Product Group AC Ventilation	hall apply only if the product is hall be void if product has faile ng out of this warranty are subjec- commences from the date of pure Product Description Recont/Split Air Conditioner/Floor Standing Air Conditioner/Floor Date Type Air Conditioner Cassette Air Conditioner FM Indoor DVM & Outdoor DVM ERV	used as per its usage s d under certain condition et to Delhi jurisdiction onli Marranty Period 04ontha 12 15' 15' 15' 15' 12'' 12''	specifications (ex: personal, commercial etc.) sns/types (ex: water logging, misuse, etc.) y, sess specified otherwise. Parts/Accessory Warranty (if applicable) 60 Months on Compressor* 20 Months on Digital Inverter Compressor* Condenser: 60 months (Fin&Tube: 12 months) 36 Months on Compressor* 12 Months on Compressor* 120 Months on Ceramic Enamel Cavity*		
Warranty si All disputes arisi Arranty period of Product Group AC Ventilation Dish Washer	hall apply only if the product is hall be void if product has faile ng out of this warrenty are subjec- commences from the date of pun Product Description Room/Spill Air Conditioner/Filor Standing Air Conditioner Duct Type Ar Conditioner Easette Air Conditioner Film Indoor DVM & Outdoor DVM ERV Dish Washer	used as per its usage s d under certain conditient et to Delhi jurisdiction on hase of the product units 12 15 15' 15' 12'' 12'' 12'' 12''	specifications (ex: personal, commercial etc.) nsrtypes (ex: water logging, misuse, etc.) y, sss specified otherwise. Parts/Accessory Warranty(if applicable) 60 Months on Compressor* 20 Months on Digital Inverter Compressor* Condenser: 60 months (Fin&Tube : 12 months) 36 Months on Compressor* 12 Months on Compressor*		
Warranty si All disputes arisi Arranty period of Product Group AC Ventilation Dish Washer Microwave	hall apply only if the product is hall be void if product has faile ng out of this warrenty are subjec- commences from the date of pure Product Description Recont/Spilt Air Conditioner/Filor Standing Air Conditioner/Filor Dat Type Air Conditioner Cassette Air Conditioner FM Indoor DVM & Outdoor DVM ERV Dish Washer Microwave Refrigerator Semi Automatic	used as per its usage s d under certain conditie et to Delhi jurisdiction on func- hase of the product unle 12 15' 15' 15' 15' 12'' 12'' 12'' 12 12 12	specifications (ex: personal, commercial etc.) sns/types (ex: water logging, misuse, etc.) y, sess specified otherwise. Parts/Accessory Warranty (if applicable) 60 Months on Compressor* 20 Months on Digital Inverter Compressor* Condenser: 60 months (Fin&Tube: 12 months) 36 Months on Compressor* 12 Months on Compressor* 120 Months on Ceramic Enamel Cavity*		
Warranty si All disputes arisi Arranty period of Product Group AC Ventilation Dish Washer Microwave	hall apply only if the product is hall be void if product has faile gout of this warronty are subjec- commences from the date of pure Product Description Room/Spiki Arc Conditioner/ROOT Standing Air Conditioner/ROOT Duct Type Air Conditioner Cassette Air Conditioner Fild Indoor DVM & Outdoor DVM ERV Dish Washer Microwave Refrigerator	used as per its usage s d under certain conditie et to Delhi jurisdiction on func- hase of the product unle 12 15' 15' 15' 15' 12'' 12'' 12'' 12 12 12	specifications (ex: personal, commercial etc.) sns/types (ex: water logging, misuse, etc.) y, sss specified otherwise. Parts/Accessory Warranty (if applicable) 60 Months on Compressor* 20 Months on Digital Inverter Compressor* Condenser: 60 months (Fin&Tube: 12 months) 36 Months on Compressor* 12 Months on Compressor* 120 Months on Ceramic Enamel Cavity* 120 Months on Ceramic Enamel Cavity* 120 Months on Compressor* 5 Years Warranty on Semi Automatic Wash Motor		
Warranty si All disputes arisi Arranty period of Product Group AC Ventilation Dish Washer Microwave	hall apply only if the product is hall be void if product has faile gout of this warronty are subjec- commences from the date of pun Product Description Read and a conditioner (RAC) Duct Type Air Conditioner Cassette Air Conditioner Cassette Air Conditioner EM Indoo DVM & Outdoor DVM ERV Dich Wakber Microwave Refigerator Semi Automatic Rear control panel Top Loading Fully	used as per its usage s d under certain conditie et to Delhi jurisdiction on func- hase of the product unle 12 15' 15' 15' 15' 12'' 12'' 12'' 12 12 12	specifications (ex: personal, commercial etc.) spst/spes (ex: water logging, misuse, etc.)		
Warranty si larranty period of Product Group AC Ventilation Dish Washer Refrigerator	hall apply only if the product is hall be void if product has failer ng out of this warranty are subjec- commences from the date of pure Product Description Record Part Acconditioner (PAC) Duct Type Ar Conditioner (PAC) Duct Type Ar Conditioner Cassette Air Conditioner Duct Type Ar Conditioner Cassette Air Conditioner Dish Washer Microwave Refrigerator Semi Automatic Rear control pure Top Loading Fully Toom Control pure Top Loading Fully	used as per its usage s d under certain conditient et to Delhi jurisdiction on hase of the product unle 12 15' 15' 15' 15' 12'' 12'' 12'' 12 12 12 12	specifications (ex: personal, commercial etc.) nsrtypes (ex: water logging, misuse, etc.) y, sss specified otherwise. Parts/Accessory Warranty (if applicable) 60 Months on Compressor* 120 Months on Digital Inverter Compressor* Condenser: 60 months (Fin&Tube : 12 months) 36 Months on Compressor* 12 Months on Compressor* 120 Months on Compressor* 240 Months on Digital Inverter Compressor* 5 Years Warranty on Digital Inverter Motor		
Warranty si larranty period of Product Group AC Ventilation Dish Washer Refrigerator	hall apply only if the product is shall be void if product has failer and ovid if product has failer and over the second secon	used as per its usage s d under certain conditient et to Delhi jurisdiction on hase of the product unle 12 15' 15' 15' 15' 12'' 12'' 12'' 12 12 12 12	specifications (ex: personal, commercial etc.) snsrtypes (ex: water logging, misuse, etc.) y, sss specified otherwise. Parts/Accessory Warranty(if applicable) 60 Months on Compressor*120 Months on Digital Inverter Compressor* Condenser: 60 months (finkTube: 12 months) 36 Months on Compressor* 120 Months on Compressor* 120 Months on Compressor* 120 Months on Ceramic Enamel Cavity* 120 Months on Compressor* 5 Years Warranty on Semi Automatic Wash Motor 20 Years Warranty on Semi Automatic Wash Motor 10 Years Warranty on AC motor with Wobble Pulsator		

Correct disposal of the product (Waste Electrical & Electronc Equipment) This marking on the product, accessories or literature indicates that the electronic accessories (e.g. charger, headset, and USB cable) should not be dispose with other household waste at the end of their working life. Correct disposal of the product (Waste Electrical & Electronic Equip

For more information on safe disposal and recycling visit our website or contact numb

SAMSUNG INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED d Address:6th Floor,DLF Centre, Sansad Marg,New Delhi-110001,Visit : www.samsu

Samsung Helpline - Call : 1800 40 SAMSUNG (7267864) / 1800 5 SAMSUNG (7267864)

SAMSUNG

Contact SAMSUNG WORLD WIDE से संपर्क करें

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center

अगर Samsung उत्पादों से संबंधित आपके कोई प्रश्न या टिप्पणियाँ हैं, तो कृपया SAMSUNG ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क करें।

Country देश	Contact Center संपर्क केंद्र	Web Site वेबसाइट
INDIA	1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) Toll-Free 1800 5 SAMSUNG (1800 5 7267864) Toll-Free	www.samsung.com/in/support
NEPAL	16600172667 (Toll Free for NTC Only) 9801572667	www.samsung.com/in/support
BANGLADESH	09612300300 08000300300 (Toll free)	www.samsung.com/in/support
SRI LANKA	+94115AMSUNG (+94117267864) +94117540540 +94115900000	www.samsung.com/in/support

This Product is RoHS compliant

